



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 562]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 23, 1981/पौष 2, 1903

No. 562] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 23, 1981/PAUSA 2, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## औद्योगिक विकास विभाग

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1981

का०घ्रा० 909(घ) —केंद्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना का० घ्रा० 98 (घ) उ० वि० वि० घ्रा० 29 ख) 73/1 तारीख 16 फरवरी, 1973 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् —  
उक्त अधिसूचना की अनुसूची 1 में

(1) क्रम सं० 9 के सामने तीसरे स्तम्भ की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

“मिथान (बाकलेट को छोड़कर)”

(2) क्रम सं० 10 के सामने तीसरे स्तम्भ की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् —

“रेप सीड तेल, विलायक अर्क को छोड़कर (राज्य कृषि सहकारी संस्थाओं और उत्पादक सहकारी संस्थाओं के मामलों से शिथिल);”

(3) क्रम सं० 11 के सामने, तीसरे स्तम्भ की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात् —

“सरसो का तेल, विलायक अर्क को छोड़कर (राज्य कृषि सहकारी संस्थाओं और उत्पादक सहकारी संस्थाओं के मामलों से शिथिल);”

(4) क्रम सं० 12 के सामने, तीसरे स्तम्भ की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

“तिल का तेल विलायक अर्क को छोड़कर (राज्य कृषि सहकारी संस्थाओं और उत्पादक सहकारी संस्थाओं के मामलों से शिथिल);”

(5) क्रम सं० 13 के सामने तीसरे स्तम्भ की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

“मूंगफली का तेल विलायक अर्क को छोड़कर (राज्य कृषि सहकारी संस्थाओं और उत्पादक सहकारी संस्थाओं के मामलों से शिथिल);”

(6) क्रम सं० 124 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् —

“124क 31060102 धातु—एमिनोफेनोल:”

(7) क्रम सं० 129 के सामने दूसरे और तीसरे स्तम्भ के अर्क और प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित अर्क और प्रविष्टियाँ रखी जाएगी, अर्थात्:—

“30330301 फास्फोर ग्लास रिहिनफोस्फे प्लास्टिक उत्पाद जो निम्नलिखित से शिथिल हैं:—

(क) एम एम सी और डी एम सी और उनकी डलाई।

(ख) निरन्तर तन्तु स्पेडन 600 सेंमी व्यास से अधिक वाले पाइप।

(ग) ग्लूटेरेड उत्पाद।

(घ) निरन्तर प्रक्रिया द्वारा एक घर पी चहरे ;

(8) क्रम सख्या 131 के सामने तीसरे स्तम्भ की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“एच० डी० पोलीथिलीन मोनो फिलामेंट (रस्मा बिन-मर्ताओं द्वारा बड़ा उपयोग को छोड़कर)”

(9) क्रम सं० 145 के सामने दूसरे और तीसरे स्तम्भ के अंकों और प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंक और प्रविष्टियाँ रखी जाएगी, अर्थात् :—

“संविनित प्लास्टिक उत्पाद जो निम्नलिखित हैं :—

- |               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| (1) 30390401  | विज्ञापन की झूठी वस्तुएं      |
| (2) 30390402  | डिस्क कलैंडर                  |
| (3) 30390403  | कलम दान                       |
| (4) 30390404  | प्लास्टिक के बिलोने           |
| (5) 30390405  | माजसज्जा और औद्योगिक फिक्स्चर |
| (6) 30390406  | सड़कों की बस्तियाँ            |
| (7) 30390407  | गलियारों की बस्तियाँ          |
| (8) 30390408  | पथों की बस्तियाँ              |
| (9) 30390409  | भूतनों के नमूने (घादि प्ररूप) |
| (10) 30390410 | मशीनों के नमूने (घादि प्ररूप) |

(10) क्रम सं० 154 के सामने दूसरे और तीसरे स्तम्भ अंकों और प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंक और प्रविष्टियाँ रखी जाएगी, अर्थात् :—

अन्य धर्मों के लिए प्लास्टिक उत्पाद जैसे :—

- |               |  |
|---------------|--|
| (1) 30392801  | खरीदारी थैले                                   |
| (2) 30392802  | आयरियाँ  |
| (3) 30392803  | फाइल कवर                                       |
| (4) 30392804  | बैज/फोल्डर                                     |
| (5) 30392805  | विज्ञापन सामग्री                               |
| (6) 30392806  | बटुए   |
| (7) 30392807  | पामपोर्ट कवर                                   |
| (8) 30392808  | टूल किट कवर                                    |
| (9) 30392809  | विक्रित्य परित्यजनीय वस्तुएं                   |
| (10) 30392810 | संगणको माइक्रोफोनो घादि के लिए औद्योगिक पैकिंग |
| (11) 30392811 | ग्रीफ केस के अन्तर, लगने वाले समजन             |
| (12) 30392812 | बाकियों की जंजीरे                              |
| (13) 30392813 | पहचान कार्ड या मिलन-पत्र                       |
| (14) 30392814 | एलबम   |
| (15) 30392815 | कपड़ों के लिए टेक्स्टाइल प्रेन्निंग            |

(11) क्रम सं० 215 के सामने तीसरे स्तम्भ की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“नीला थैलामाडनिम (हरा थैलोमाडनिम के विनिर्माण के लिए बड़ा उपयोग को छोड़कर)” ;

(12) क्रम सं० 339 के सामने दूसरे और तीसरे स्तम्भ के अंकों और प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंक और प्रविष्टियाँ रखी जाएगी, अर्थात् :—

“रसायन पॉलिमर की मदे जो निम्नलिखित हैं :—

- |              |                        |
|--------------|------------------------|
| (1) 32390401 | फ्लैट टिप्प बेसिन      |
| (2) 32390402 | गोल और आयताकार बाकियाँ |
| (3) 32390403 | दहन भाव                |

(4) 32390404

मूबा

(5) 32390405

बैकम भाव के लिए फिल्टर फनेस

(6) 32390406

ग्रीडो फिल्ट्रेशन

(7) 32390407

विपेट रेस्ट

(8) 32390408

स्पेडिंग प्लेटे

(9) 32390409

ड्रेसीकोटर प्लेटे” ;

(13) क्रम सं० 340 के सामने दूसरे और तीसरे स्तम्भ के अंकों और प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित अंक और प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात् :—

“3249010 प्लास्टर फ्राफ पेरिस (50 कि० घ्रा०/घर्ग सेटीमीटर लम्बाई से कम)”

(14) क्रम सं० 354 के सामने तीसरे स्तम्भ की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात् :—

“प्रेषर डाइ कार्टिंग 0 75 कि० घ्रा० तक ;”

(15) क्रम सं० 378 के सामने तीसरे स्तम्भ की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“34101201—1500 मीटर भण्डारण धारिता तक के एक एम एस भण्डारण टैंक (साधारण प्रकार के जिसके माथ गिबेट वेल्ड्स हैं लेकिन प्रेव ट्रिप्स को छोड़कर)”

(16) क्रम सं० 380 के सामने क्रमशः दूसरे स्तम्भ और तीसरे स्तम्भ में अंकों और प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित अंक और प्रविष्टि अतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“34050201 बल्लोवाला स्टोक ऑ डिजाइन सं० 145-215, 145216, 145299 के अनुसार विनिर्मित स्टोक में भिन्न हैं (मूलन प्रकार के स्टोक) और जो भारतीय तेल निगम के नाम के रजिस्ट्रीकृत हैं ;”

(17) क्रम सं० 392 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियाँ अतः स्थापित की जाएगी अर्थात् :—

“392 क 340922 क्राउन कार्ड (बड़ा उपयोग को छोड़कर) ;”

(18) क्रम सं० 432 के सामने दूसरे और तीसरे स्तम्भ के अंकों और प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित अंक और प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात् :—

“343399 दराज के तापे और सूटकेस के तापे” ।

(19) क्रम सं० 637 के सामने तीसरे स्तम्भ की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“घाटोमोवाइन रेडिएटर (गुणागुण के आधार पर विश्वमान यूनियो के विश्वारण और नई/बेहतर औद्योगिक पर आधारित नई यूनियो को छोड़कर और एलुमिनियम रेडिएटर को अप-वर्जित करके)”

(20) क्रम सं० 681 के सामने दूसरे और तीसरे स्तम्भ के अंकों और प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंक और प्रविष्टियाँ रखी जाएगी अर्थात् :—

“गाड़ियों के रबड़ के पुर्जों जो निम्नलिखित हैं :—

- |              |                   |
|--------------|-------------------|
| (1) 37499401 | ब्रेक पेडल        |
| (2) 37499402 | क्लच पेडल         |
| (3) 37499403 | धूस बक्का आवरण    |
| (4) 37499404 | वाइपर ब्लेड सघटक  |
| (5) 37499405 | विश्वस्पीन बीडिंग |

- (6) 37499406      होर बैनेल  
(7) 37499407      रबड़ बीडिंग  
(8) 30260701      रबड़ की बिटाइया 1";

(21) क्रम सं० 791 के सामने तीसरे स्तम्भ की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"निम्नलिखित लेवेल कन्ट्रोलर (इलेक्ट्रॉनिक प्रकार को छोड़कर

(22) क्रम सं० 2, 106, 120, 229, 243, 286, 293, 294, 520, 536, 653, 785, और 789 और उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों का नाप किया जाएगा ।

2 केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29B की उपधारा (2) के अनुसरण में, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि को उस अधिविधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसकी समाप्ति के पश्चात् किसी ऐसे औद्योगिक उपक्रम का जिसे उक्त अधिनियम की धारा 10, 11, 11A और 13 के प्रवर्तन से पहले छूट प्राप्त थी और जिसे इस अधिसूचना के आधार पर छूट नहीं दी गई है, कोई स्वामी केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त जारी की गई किसी अनुज्ञप्ति के अधीन और उक्त के अनुसार ही और राज्य सरकार की दशा में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के अधीन और उसके अनुसार ही ऐसे उपक्रम का कारबार चलाएगा, अन्यथा नहीं ।

फॉ० सं० 12(60)/लप/78

एस०एस० कपूर, मुख्य सचिव

## DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 1981

**S.O. 909(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 98(E)/IDRA/29B/73/1, dated the 16th February, 1973, namely :—

In the said notification, in Schedule I,

- (i) against serial No. 9, for entry in the third column, the following entry shall be substituted, namely :—  
"Confectionary (except chocolates)";
- (ii) against serial No. 10, for entry in the third column, the following entry shall be substituted, namely :—  
"Rapeseed Oil except solvent extracted (other than cases of State agro-cooperatives and growers co-operatives)";
- (iii) against serial No. 11, for entry in the third column, the following entry shall be substituted, namely :—  
"Mustard Oil except solvent extracted (other than cases of State agro-cooperatives and growers co-operatives)";
- (iv) against serial No. 12, for the entry in third column, the following entry shall be substituted, namely :—  
"Sesame Oil except solvent extracted (other than cases of State agro-cooperatives and growers co-operatives)";
- (v) against serial No. 13, for the entry in the third column, the following entry shall be substituted, namely :—  
"Groundnut Oil except solvent extracted (other than cases of State agro-cooperatives and growers co-operatives)";
- (vi) after serial No. 124 and entries relating thereto, the following serial No. and entries thereto shall be inserted, namely :—  
"124A 31060102 Ortho-Aminocresol";

(vii) against serial No. 129, for the figures and entry in the second and third columns respectively, the following figures and entries shall respectively be substituted, namely :—

"30330301 Fibre glass reinforced plastic products other than the following :—

- (a) SMC & DMC and its mouldings.
- (b) Continuous Filament winding (pipes above 600 mm diameter).
- (c) Pultruded products.
- (d) FRP sheets by continuous process";

(viii) against serial No. 131, for entry in the third column, the following entry shall be substituted, namely :—

"H.D. Polyethylene mono-filament (except for captive use by rope manufacturers)";

(ix) against serial No. 145, for the figures and entry in the second and third columns respectively, the following figures and entries shall respectively be substituted, namely :—

"Fabricated Plastic Products as follows :—

- (1) 30390401 Advertising Novelties
- (2) 30390402 Desk Calender
- (3) 30390403 Pen Stand
- (4) 30390404 Plastic Toys
- (5) 30390405 Decorative and Industrial Fixtures
- (6) 30390406 Street Lights
- (7) 30390407 Corridor Lights
- (8) 30390408 Passage Lights
- (9) 30390409 Building Models (Prototype)
- (10) 30390410 Machine Models (Prototype).

(x) against serial No. 154, for the figures and the entry in the second and third columns respectively, the following figures and entries shall respectively be substituted, namely :—

"Other Thermo Welded Plastic Products such as :—

- (1) 30392801 Shopping Bags
- (2) 30393802 Diaries
- (3) 30392803 File Covers
- (4) 30392804 Badges/Folders
- (5) 30392805 Advertising Materials
- (6) 30392806 Wallets
- (7) 30392807 Passport Covers
- (8) 30392808 Tool Kit Covers
- (9) 30392809 Medical Disposables
- (10) 30392810 Industrial Packings for Calculators, Microphones etc.
- (11) 30392811 Inside assembly of Brief cases
- (12) 30392812 Key chains
- (13) 30392813 Identity cards and visiting cards.
- (14) 30392814 Albums
- (15) 30392815 Textile Welding for Garments";

(xi) against serial No. 215, for the entry in the third column, the following entry shall be substituted, namely :—

"Phthalocyanine blue (except for captive consumption for manufacture of Phthalocyanine Green)";

(xii) against serial No. 339, for the figures and entry in the second and third columns respectively, the

following figures and entries shall respectively be substituted, namely :—

“Chemical Porcelain items as follows :—

- (1) 32390401 Flat Tipped Basins
- (2) 32390402 Round and Rectangular type dishes
- (3) 32390403 Combustion Boats
- (4) 32390404 Crucibles
- (5) 32390405 Filter Funnels for Vacuum Pressure
- (6) 32390406 Gravity Filtrations
- (7) 32390407 Pipette Rests
- (8) 32390408 Spotting Plates
- (9) 32390409 Desiccator Plates”;

(xiii) against serial No. 340, for the figures and entry in the second and third columns respectively, the following figures and entry shall respectively be substituted, namely :—

“32490101 Plaster of Paris (below 50 k.g./sq. cm. in strength)”;

(xiv) against serial No. 354 for the entry in the third column, the following entry shall be substituted, namely :—

“Pressure Die Castings upto 0.75 kg.”;

(xv) against serial number 378A for the entry in the third column, the following entry shall be substituted, namely :—

“34101201 M. S. Storage tanks upto 15000 litres storage capacity (simple type with rivets/welds but excluding pressed ribs)”;

(xvi) against serial No. 380, for the figures and entry in the second and third columns respectively, the following figures and entry shall respectively be substituted, namely :—

“34050201 Wick Stoves other than those manufactured in accordance with design Nos. 145215, 145216, 145299 (Nutan type Stoves) registered in the name of Indian Oil Corporation”;

(xvii) after serial No. 392 and the entries relating thereto, the following serial number and entries thereto shall be inserted, namely :—

“392A 340922 Crown Corks (except for captive consumption)”;

(xviii) against serial No. 432, for the figures and entry in the second and third columns respectively, the following figures and entry shall respectively be substituted, namely :—

“343399 Drawer Locks and Suitcase Locks.”;

(xix) against serial No. 637, for the entry in the third column, the following entry shall be substituted, namely :—

“Automobile Radiators (except for expansion of existing units on merits and induction of new units

based on new/improved technology and excluding aluminium radiators)”;

(xx) against serial No. 681, for the figures and entry in the second and third columns respectively, the following figures and entries shall respectively be substituted, namely :—

“Auto-Rubber components as follows :—

- (1) 37499401 Brake Pedals
- (2) 37499402 Clutch Pedals
- (3) 37499403 Dust covers
- (4) 37499404 Wiper Blade components
- (5) 37499405 Windscreen Beedings
- (6) 37499406 Door channels
- (7) 37499407 Rubber Beeding
- (8) 30260701 Rubber Mats.”;

(xxi) against serial No. 791, for the entry in the third column, the following entry shall be substituted, namely :—

“Liquid Level Controller (excepting electronic type)”

(xxii) serial Nos. 2, 106, 120, 229, 243, 286, 293, 294, 520, 536, 653, 785 and 789 and entries relating thereto shall be omitted.

2. In pursuance of sub-section (2) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby specifies a period of six months from the date of publication of this notification as the period after the expiry of which no owner of any industrial undertaking, which was previously exempted from the operation of sections 10, 11, 11A and 13 of the said Act and which is not so exempt by virtue of this notification, shall carry on the business of such undertaking, except under and in accordance with a licence issued in this behalf by the Central Government, and in the case of a State Government, except under and in accordance with the previous permission of the Central Government.

[F. No 12/211/79-LP]

S. L. KAPUR, Jt. Secy.

#### NOTE :

Existing Schedule I to the Notification No. S.O. 98(E)/ (DRA)29B/73/1 dated 16th February, 1973 was substituted vide Notification No. 281(E) dated 26th April, 1978 and subsequently amended by the following Notifications :—

- (1) Notification No. S.O. 750(E), dated 30-12-78.
- (2) Notification No. S.O. 312(E), dated 12-5-80.
- (3) Notification No. S.O. 115(E), dated 19-2-81.
- (4) Notification No. S.O. 621(E), dated 3-8-81.